



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2006/कार्तिक 19, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2006/KARTIKA 19, 1928

इलाहाबाद बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 1 नवम्बर, 2006

सं. प्रका/एडीएमएन/एफ-49/04068(ई).—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980* (1970 का 5)/(1980 का 40*) की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—

- (1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम, शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 के विनियम 5 में :—

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के अंतर्गत परंतुक के पश्चात् एवं नोट से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“परंतु यह भी कि अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि/याँ/गत्यावरोध वेतनवृद्धि/याँ ऐसे अधिकारी को अनुमत नहीं की जाएंगी जिसने पदोन्नति प्रस्ताव प्रदान किए जाने पर उसे अस्वीकार किया हो।”

(ख) उप-विनियम (2) के, खंड (घ) के स्पष्टीकरण में नोट (ii) के पश्चात् निम्नलिखित नोट अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(iii) कोई अधिकारी उपर्युक्तानुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन पाने का पात्र नहीं होगा यदि वह पदोन्नति प्रस्ताव प्रदान किए जाने पर पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है।”

बिजन राय, महाप्रबंधक (काप्र)

[विज्ञापन III/IV/77/2006-असा.]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा बाद में इसमें निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधन किए गए।

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	विधि/1/87	19-08-1987
2.	विधि/2/87	14-09-1987
3.	विधि/3/87	02-11-1987
4.	विधि/4/87	02-11-1987
5.	विधि/5/87	13-11-1987
6.	विधि/6/87	20-11-1987
7.	विधि/2/88	07-10-1988
8.	विधि/2/89	30-10-1989
9.	विधि/2/90	21-06-1990
10.	विधि/3/90	22-06-1990
11.	प्रका/विधि/X-29/0646	18-08-1992
12.	प्रका/विधि/334/0647	18-08-1992

(1)	(2)	(3)
13.	प्रका/विधि/0550	17-08-93
14.	प्रका/विधि/1500	16-02-94
15.	प्रका/विधि/2614	11-01-95
16.	प्रका/विधि/2658	19-01-95
17.	प्रका/विधि/0279	15-06-95
18.	प्रका/ प्रशा/5/1656	6-11-96
19.	प्रका/विधि/0938	25-11-97
20.	प्रका/विधि/1236	15-03-97
21.	प्रका/विधि/1273	4-03-99
22.	प्रका/विधि/949	10-12-99
23.	प्रशा/6/1992	26-06-2000
24.	प्रका/विधि/0576	5-07-2000
25.	प्रशा/3107	7-08-2002
26.	प्रका/ प्रशा/एफ.-49/775	5-11-2002
27.	प्रका/ प्रशा/एफ.-49/06395	27-01-2006

“Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered”;

(b) In sub-regulation (2) in clause (d) of the Explanation, after Note (ii), the following Note shall be inserted, namely:

“(iii) An Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay, as above, if he refuses to accept promotion when offered.”

BIJAN ROY, General Manager (PA)

[ADVT III/TV/77/2006-Exty.]

Note:— The Principal regulations were published in the Gazette and subsequently amended as per details given below:—

ALLAHABAD BANK
(HEAD OFFICE)
Kolkata, the 1st, November, 2006

No. HO/Admn/F-49/04608 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980* (5 of 1970/40 of 1980*), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. Short title and commencement:—

(1) These Regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2006.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1979, in regulation 5:—

(a) In sub-regulation (1), under clause (c), after the proviso and before the Note the following proviso shall be inserted, namely:

Sl. No.	Notification No.	Dated
1.	Legal/1/87	19-08-87
2.	Legal/2/87	14-09-87
3.	Legal/3/87	02-11-87
4.	Legal/4/87	02-11-87
5.	Legal/5/87	13-11-87
6.	Legal/6/87	20-11-87
7.	Legal/2/88	07-10-88
8.	Legal/2/89	30-10-89
9.	Legal/2/90	21-06-90
10.	Legal/3/90	22-06-90
11.	HO/Legal/X - 29/0646	18-08-92
12.	HO/Legal/334/0647	18-08-92
13.	HO/Legal/0550	17-08-93
14.	HO/Legal/ 1500	16-02-94
15.	HO/Legal/2614	11-01-95
16.	HO/Legal/2658	19-01-95
17.	HO/Legal/0279	15-06-95
18.	HO/Admn/5/1656	06-11-96
19.	HO/Legal/0938	25-11-97
20.	HO/Legal/ 1236	15-03-97
21.	HO/Legal/1273	04-03-99
22.	HO/Legal/949	10-12-99
23.	Admn/6/1992	26-06-2000
24.	HO/Legal/0576	05-07-2000
25.	Admn/3107	07-08-2002
26.	HO/Admn/F-49/775	05-11-2002
27.	HO/Admn/F-49/06395	27-01-2006